

इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)



IRCON INTERNATIONAL LIMITED

(A Govt. of India Undertaking) An integrated Engineering and Construction Company

IRCON/SECY/STEX/124	31 st May, 2022
BSE Limited	National Stock Exchange of India Limited
Listing Dept./ Dept. of Corporate Services	Listing Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers	Exchange Plaza, Plot no. C/I, G Block
Dalal Street	Bandra –Kurla Complex,
Mumbai – 400001	Bandra (East) Mumbai – 400051
बीएसई लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
लिस्टिंग विभाग / कॉर्पोरेट सेवा विभाग	लिस्टिंग विभाग
पी. जे. टावर्स,	एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं सी / आई, जी ब्लॉक,
दलाल स्ट्रीट,	बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
मुंबई– 400001	बांद्रा (पूर्व) मुंबई-400051
Scrip code / ID: 541956 / IRCON	Scrip Code: IRCON

Sub: Newspaper Publication of Notice of Postal Ballot/ पोस्टल बैलट की सूचना का समाचार पत्र प्रकाशन

Dear Sir/ Madam, महोदय / महोदया,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Copy of Notice of Postal Ballot of Ircon International Limited as published in the newspapers (in English and Hindi) are enclosed herewith for your information and record.

सेबी (सूचिबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के तहत इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के पोस्टल बैलट के नोटिस की कॉपी जिसे अखबारों (अंग्रेजी और हिंदी में) में प्रकाशित किया गया है, आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए संलग्न हैं।

कृपया उपरोक्त जानकारी को रिकॉर्ड पर लें।

धन्यवाद, **भवदीया**, कृते **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड**

(रितु अरोड़ा) कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता क्र.: FCS 5270





पंजीकृत कार्यालय : सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली - 110017, भारत Registered. Office : C-4, District Centre, Saket, New Delhi - 110017, INDIA Tel. : +91-11-26530266 Fax : +91-11-26854000, 26522000 | E-mail : info@ircon.org Web : www.ircon.org CIN : L45203DL1976GO1008171



TUESDAY, MAY 31, 2022

13

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

(Rs. IN LACS)

ANUBHAV INFRASTRUCTURE LIMITED REGISTERED OFFICE : "ANANTA BHAWAN", 94, VIVEKANAND NAGAR, P.O. - PODRAH, ANDUL ROAD, 3RD FLOOR, ROOM NO. -303,

HOWRAH - 711 109

Statement of Unaudited Financial Results for the year ended March 31, 2022

				(13.11 6400)
Sr. No.	Particulars	Current Quarter Ended	Preceding 3 months ended	Corresponding three months ended in the Previous Year
		31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
		Audited	Un-audited	Audited
1.	Total income from Operations	32.75	-	38.06
2.	Net Profit / (Loss) for the Period Before Tax (Before Exceptional and/or Extraordinary items)	3.29	(9.07)	11.23
3.	Net Profit / (Loss) for the Period Before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	3.29	(9.07)	11.23
4.	Net Profit / (Loss) for the Period After Tax (Exceptional and/or Extraordinary items)	3.26	(9.07)	11.23
5.	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit / (Loss) for the period (After Tax) and other comprehensive Income (After Tax)	3.26	(9.07)	11.23
6.	Reserve (excluding Revaluation reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year	-	-	-
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (a) Basic	0.02	(0.04)	0.05
	(b) Diluted	0.02	(0.04)	0.05

, The above is an extract of the detailed format for the guarter ended June 30, 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format is also available on the websites of the Stock Exchange(s).

For Anubhav Infrastructure Limit	ed
Sweta Ja	ain
(Company Secretar	ry)

SUNSHIELD CHEMICALS LIMITED SUNSHIELD

Corporate Identity Number : L99999MH1986PLC041612 CHEMICALS LTD Regd. Office: 1501-A, Universal Majestic, P.L. Lokhande Marg, behind RBK International School Chembur-West, Mumbai-400 043. | Phone No. 25550126

E Mail : investorservices@sunshieldchemicals.com | Website : www.sunshieldchemicals.com

Extract of Audited financial results for the guarter and Year ended 31 March, 2022 Rs. In Lakhs (Excent earnings per shar

Sr.	Particulare	Three months ended	Previous three months ended	Corresponding three months ended	Year ended	Year ended
No.	5 C-11-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-	31/03/2022	31/12/2021	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1	Total income from operations	6,718	5,809	5,184	24,471	19,891
2	Net Profit for the period/year (before tax and exceptional items)	448	560	468	2,136	1,662
3	Net Profit for the period/year (before tax after exceptional items)	448	560	468	3,918	1,662
4	Net Profit for the period/year after tax	279	379	330	2,748	1,418
5	Total Comprehensive Income for the period/year	273	382	352	2,753	1,431
6	Paid -up equity share capital (face value of Rs.10/- each)	735	735	735	735	735
7	Other Equity excluding revaluation reserve (as per last audited balance sheet)				4632	1,879
8	Basic & Diluted Earnings per Share (of Rs.10/- each) (* not annualized) -in Rupees	3.8*	5.15*	4.49*	37.37	19.29

इस्केंन **IRCON INTERNATIONAL LTD.** THIT (A Govt. of India Undertaking) Regd. office: C-4, District Centre, Saket, New Delhi-110017, INDIA Tel. No.: +91-11-26530266, Fax: +91-11-26854000 Web: www.ircon.org, E-mail: investors@ircon.org, CIN-L45203DL1976GOI008171

NOTICE OF POSTAL BALLOT/E-VOTING TO THE MEMBERS

Members of the Company are hereby informed that a Postal Ballot Notice ("Notice") seeking members' consent on the resolutions as set out in the said Notice has been sent on 30" May, 2022 by e-mail to all the Members, whose name appears on the Register of Members/ List of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date i.e. Friday, 27" May, 2022 and who have registered their e-mail addresses in respect of electronic holdings with the Depositories through the concerned Depository Participants and in respect of physical holdings with Alankit Assignments Limited, the Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("RTA/ Alankit").

The Notice is also available at Company's website www.ircon.org under the section INVESTORS and on the website of CDSL viz. www.evotingindia.com and at the website of Stock Exchange i.e. BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE).

In compliance with MCA, circulars, the hard copy of the Notice along with Postal Ballot forms and pre-paid business envelope have not be sent to the Members. Accordingly, the communication of the assent or dissent of the Members on this Postal Ballot would take place through remote e-voting only.

Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Alankit Assignments Limited, 208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 or by mail to rta@alankit.com.

The Company is providing facility for voting by e-voting to all the Members of the Company to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the Notice. For this purpose, the Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited.

Members whose names appear on the Register of Members/list of Beneficial Owners as on Friday, 27" May, 2022 will be considered for the purpose of voting and each Member's voting rights shall be in proportion to his / her share of the paid-up equity share capital of the Company. Any person who is not a shareholder as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

All the Members are therefore hereby informed that:

1. Remote e-voting period will commence on Tuesday 31" May, 2022 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Wednesday, 29" June, 2022 at 5:00 P.M. (IST).

2. Mr. Sachin Agarwal, Practicing Company Secretary (Membership No. F5774), partner, and failing him Ms. Poonam, Practising Company Secretary (Membership No. A37303) partner of M/s Agarwal S. & Associates, Company Secretaries, have been appointed as Scrutinizer for conducting the e-voting process in accordance with the law in fair and transparent manner.

3. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25" Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbal-400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no. 1800 22 55 33.

Resolutions passed by the Members through postal ballot are deemed to have been passed as if they have been passed at a General Meeting of the Members. The results of the voting by Postal Ballot will be announced on or before Friday, 1" July, 2022. The results of the Postal Ballot will be posted on the website of the Company at www.ircon.org and on website of CDSL at www.evotingindia.com and will also be communicated to the Stock Exchanges i.e. NSE & BSE

For Ircon International Limited

Date : 27/05/2022

Place : Kolkata

Ш





TEGA INDUSTRIES LIMITED

CIN: L25199WB1976PL C030532

Registered Office: 147, Block-G, New Alipore, Kolkata-700 053. Telephone No.: +91-33-4093 9000; Fax No.: +91-33-4093 9075 Email: investor.relations@tegaindustries.com; Website: www.tegaindustries.com

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATIONS

NOTICE is hereby given to the members pursuant to Section 108, Section 110 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021 and General Circular No. 3/2022 dated May 5, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), read with Regulation 44 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI LODR Regulations"), as amended and Secretarial Standard-2 ("SS-2") on General Meetings including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and pursuant to other applicable laws and regulations, that the Special Resolution as set out in the Notice is proposed for consideration by the members of the Company for passing by means of Postal Ballot by way of voting through electronics means ("remote e-voting") for the following agenda item:

 To consider and approve appointment of Mr. Ashwani Maheshwari (DIN: 07341295) as an Independent Director for a term of 5 (Five) consecutive years.

The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company. ("Linkintime") as the agency to provide e-voting facility.

The Postal Ballot Notice along with the instructions regarding remote e-voting has been sent on Friday, May 27, 2022 only through email to those members, whose e-mail addresses are registered with the Linkintime or Depositories/Depository Participants and whose names appear in the Register of Members or list of beneficial owners as on Friday, May 20, 2022 ("Cut-off date") in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding general meetings/conducting postal ballot process through remote e-voting.

The Postal Ballot Notice shall also be uploaded on the website of the Company i.e. www.tegaindustries.com and on the remote evoting website of Linkintime i.e. https://instavote.linkintime.co.in and also on the websites of BSE and NSE on which the shares of the Company are listed.

All the members of the Company as on the Cut-off date (including those members who may not have received this Notice due to nonregistration of their e-mail addresses with the Company or Depositories/Depository Participants) shall be entitled to vote in accordance with the process specified in Remote e-Voting Instructions in the Postal Ballot Notice.

Members holding shares in physical mode and who have not updated their e-mail addresses with the Company are requested to send an email to Linkintime at rnt.helpdesk@linkintime.co.in or enotices@linkintime.co.in and get their respective email addresses updated. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their email addresses with the relevant Depositories/Depository Participants.

Remote e-voting shall commence on Saturday, May 28, 2022, at 9.00 A.M. (IST) and end on Sunday, June 26, 2022 at 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by Linkintime for voting thereafter.

Mr. Atul Kumar Labh, Practicing Company Secretary (CP No. 3238 and Membership No. FCS 4848) as the "Scrutinizer" for conducting the Postal Ballot process through the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer will submit the results to the Chairman of the Company or to any other person authorized by him after completion of scrutiny of the remote e-voting and the results of the remote e-voting shall be declared not later than 5.00 P.M. (IST) on Tuesday, June 28,2022.

The resolution, if approved by the requisite majority of members by means of Postal Ballot, shall be deemed to have been passed on the last day of e-voting i.e. Sunday, June 26, 2022.

In case of any query/concern/grievance, members may refer the (i) Instavote e-voting manual or (ii) Frequently Asked Questions ("FAQs"), available under Help section at https://instavote.linkintime.co.in or contact Mr. Rajiv Ranjan of Linkintime, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra, India or Call at:- Telephone No.: 022-49186000 or write an email to the Company Secretary at investor.relations@tegaindustries.com.

> By the order of Board of Directors For Tega Industries Limited

Sd/-Manoj Kumar Agarwal Company Secretary Membership No: ACS 15975

Note:-

Note:

Place : Howrah

Date : August 11, 2020

The Unaudited financial Results for the guarter/ Year ended 31 March 2022 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective Meetings held on 30 May 2022, In Compliances with Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 ("SEBI Regulations") a limited review of the above results has been carried out by statutory auditors of the Company.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Year ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the guarterly/yearly ended Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website www.sunshieldchemicals.com

The Figures of Previous Periods have been regrouped wherever necessary.

For and on behalf of the Board of Directors SUNSHIELD CHEMICALS LIMITED

Mumbai, 30 May 2022

Virendrasingh Baidwal Managing Director

SHALIMAR WIRES INDUSTRIES LIMITED CIN: L74140WB1996PLC081521



Registered Office : 25, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata- 700 013 Tel: 91-33-22349308/09/10, Fax: 91-33-2211 6880, E mail Id:keiriwal@shalimarwires.com, website : www.shalimarwires.com

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

22	201	28	Rs.in lacs
Particulars	3 months ended (31/03/2022) Audited	3months ended (31/03/2021) Audited	Year ended (31/03/2022) Audited
Total Income from Operations	2,631.62	2,851.98	9,717.21
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(81.02)	(648.48)	(1,053.23)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	963.77	(648.48)	(8.44)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	963.77	(648.48)	(8.44)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	963.01	(649.41)	(9.20)
Equity Share Capital	855.10	855.10	855.10
Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
Basic:	2.25	(1.52)	(0.02)
Diluted:	2.25	(1.52)	(0.02)
	Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic:	Particulars(31/03/2022) AuditedTotal Income from Operations2,631.62Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)(81.02)Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)963.77Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)963.77Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)963.77Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other963.01Equity Share Capital855.10Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) -2.25	Particulars(31/03/2021) Audited(31/03/2021) AuditedTotal Income from Operations2,631.622,851.98Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)(81.02)(648.48)Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)963.77(648.48)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)963.77(648.48)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)963.77(648.48)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)963.77(648.48)Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))963.01(649.41)Equity Share Capital855.10855.10855.10Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) -2.25(1.52)

Notes :

Kolkata

30th May, 2022

The above is an extract of the detailed format of audited Financial Results of the Company for the Quarter and year ended 31st March. 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Reguirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results of the Company are available on the websites www.shalimarwires.com of the Company and Stock Exchange(s).

> For Shalimar Wires Industries Limited Sunil Khaitan **Chairman & Managing Director** DIN No. 00385961

ARCHIDPLY DECOR LIMITED

Website: www.renukasugars.com

Belagavi - 590010. Tel No.: +91-831-2404000

E-mail: groupcs@renukasugars.com/einward.ris@kfintech.com

Notice is hereby given, pursuant to Sections 110 and 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") including any statutory modification(s) or amendment(s) thereto or re-enactment(s) thereof for the time being in force and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ('Listing Regulations"), that the Company is seeking approval of its Members through Postal Ballot (E-voting) for the resolutions set out in the Postal Ballot Notice dated 24th May 2022. The Members are hereby informed that:

- 1. In view of ongoing Covid-19 crisis, the Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April 2020, 22/2020 dated 15th June 2020, No. 33/2020 dated 28th September 2020 and Circular No. 39/2020 dated 31st December 2020, Circular No. 10/2021 dated 23rd June 2021, Circular No. 20/2021 dated 8th December 2021 and 3/2022 dated 5th May 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars'), have permitted companies to hold their general meetings / conducting postal ballot process through e-voting in accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder. The MCA has clarified that the companies that are required to provide e-voting facility under the Act, while they are transacting any business(es) only by postal ballot upto 31st December 2022 or till further orders, whichever is earlier, the requirements provided in Rule 20 of the Rules as well as the framework provided in the MCA Circulars will be applicable mutatis mutandis.
- 2. The Postal Ballot notice, along with e-voting instructions, has been sent by the Company only through e-mail on Monday, 30th May 2022 to all those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or with the Depository Participants or with KFin Technologies Limited (KFIN), Registrar and Share Transfer Agent of the Company and to those Members whose names appear in the Register of Members/Beneficial Owners/Record of National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on 24th May 2022, which is also the cut-off date to reckon paid up value of shares and voting rights of the Members.
- The above said documents are also available on the website of the Company at www.renukasugars.com, on the website of KFIN at www.kfintech.com and on the website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The person who is not a Member as on said cut-off date should treat this notice for information purpose only. Further, as per the MCA circulars, physical copy of the Postal Ballot notice, Postal Ballot form and pre-paid Business reply envelope have not been sent to the Members for this Postal Ballot.
- Members who have not registered their e-mail address, and in consequence of which the Notice of Postal Ballot and e-voting instructions could not be serviced to them, may temporarily get their e-mail address and mobile number registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFIN, by clicking on the link: https://karisma.kfintech.com/emailreg for doing the same. Members are requested to follow the process as guided to capture the e-mail address and mobile number for obtaining the soft copy of notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, Members may write to einward.ris@kfintech.com.
- 5. In compliance with Section 108 of the Act and Rule 20 of

	THE INDIAN HOTELS CO	MPANY LIMITED
CL	Corporate Identification No. (CIN) : L7	4999MH1902PLC000183
	Registered Office : Mandlik House, Manc	llik Road, Mumbai - 400 001
	Tel.: 91 22 6665 1	1000
	E-mail: investorrelations@tajhotels.com	Website: www.ihcltata.com
PUI	BLIC NOTICE - 121 st ANNUAL GENERA	AL MEETING

In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021 and 02/2022 dated May 5, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as 'MCA Circulars') Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 & SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), the 121st Annual General Meeting ('AGM') of The Indian Hotels Company Limited (the 'Company') will be held on Thursday, June 30, 2022 at 3.00 p.m. (IST) through Video Conference ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM'), provided by the National Securities Depository Limited ('NSDL') to transact the business as set out in the Notice convening the AGM. Accordingly, the Members can attend and participate in the AGM ONLY through the VC/OAVM facility, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The e-copy of 121st Integrated Annual Report of the Company for the Financial Year 2021-22 (the 'Annual Report') along with the Notice of the AGM, Financial Statements and other Statutory Reports will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participants ('**DPs**'), unless any Member has requested for a physical copy of the same. The Company shall send a physical copy of the Integrated Annual Report to those Members who request the same at investorrelations@tajhotels.com mentioning their Folio No./ DP ID and Client ID. The same will also be available on the website of the Company at https://www.ihcltata.com/AGM/2022/AGM-FY2022/ and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Additionally, the Notice of AGM will also be available on the websites of the stock exchanges on which the securities of the Company are listed, i.e. at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register the same to receive the Notice of AGM and Integrated Annual Report electronically and to receive login ID and password for e-Voting before 5:00 p.m. (IST) on **Friday, June 17, 2022** by following the process mentioned below:

1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
	a) Visit the link: https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html
1	b) Select the company name viz. The Indian Hotels Company Limited;
Physical Holding	 c) Enter the DP ID & Client ID / Physical Folio Number and PAN number. In the event the PAN details are not available on record for Physical Folio, Member to enter one of the Share Certificate number;
	 d) Upload a self-attested copy of PAN card for authentication. If PAN details are not available in the system, the system will prompt the Member to upload a self-attested copy of the PAN card for updation;
1	e) Enter your e-mail address and mobile number;
	f) The system will then confirm the e-mail address for receiving this AGM Notice.
Demat Holding	Members holding shares in demat form are requested to register/update their e-mail addresses with the relevant Depository Participants.
AGM to al procedure	bany is pleased to provide remote e-voting facility (' remote e-voting ') before and/ during the I its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Detailed for remote e-voting before and/ during the AGM will be provided in the Notice of the AGM.
in their ba	who have not updated their Bank account details for receiving the dividends directly ank accounts through Electronic Clearing Service or any other means, may follow the i instructions to do so latest by Friday, June 17, 2022:
	 Visit the link https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html under Bank detail Registration - fill in the following details relating to bank account in which the dividend is to be received: Name of Bank;
Physical ii) Bank Account Number and	
Holding	iii) 11 digit IFSC Code;
Holding	 iii) 11 digit IFSC Code; 2) upload a self-attested scanned copy of the PAN Card; 3) upload a self-attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company; 4) upload a self-attested scanned copy of cancelled cheque leaf bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held jointly.
Holding Demat Holding	 iii) 11 digit IFSC Code; 2) upload a self-attested scanned copy of the PAN Card; 3) upload a self-attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company; 4) upload a self-attested scanned copy of cancelled cheque leaf bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held jointly. Members holding shares in demat form are requested to update their Electronic

Registered Office: Plot no. 7, Sector - 9, Integrated Industrial Estate, SIDCUL, Pant Nagar, Rudrapur, Udham Singh Nagar - 263153, Uttarakhand, Tel: 05944 250 270 Fax No.05944 250269, E-mail:bangalore@archidply.com. Website: www.archidplydecor.com CIN: U20231UR2017PLC008626

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31.03.2022 (Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 31.03.2022	3 Months Ended 31.12.2021	Quarter Ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
Total Income	1,138.24	1,183.18	1,385.83	4,305.61	3,390.67
Net Profit (Before tax, Exceptional items)	29.85	38.52	7.48	30.12	(123.65)
Net Profit (Before tax and after Exceptional items)	29.85	38.52	7.48	30.12	(123.65)
Net Profit for the perod after tax (after exceptional items)	21.95	27.69	56.88	19.71	(70.57)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(loss) for the period (after tax)	22.66	31.47	70.12	31.51	(57.33)
Paid-up equity share capital (Face value Rs. 10 per share)	556.63	556.63	556.63	556.63	556.63
other Equity					
Basic & Diluted Earnings Per Share (EPS)		1			
not annualised	0.39	0.50	1.02	0.35	-1.27

Notes: 1. The above unaudited Financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meetings held on 30th May, 2022. The Statutory Auditor has issued an ungualified Auditor's report thereon. 2. This unaudited Financial Results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Sec 133 of Companies Act, 2013 and other recognised accounting practises and policies to the extent applicable. 3. Figures for the previous periods have been regrouped and reclassified to confirm to the classification of the current period, wherever necessary. 4. There are no exceptional / extraordinary items during the year & guarter ended 31st March, 2022. 5. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges and Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Annual Financial Results are available on the stock exchanges websites - www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website www.archidplydecor.com

Date : May 30, 2022 Place:Bengaluru financialexp.epapr.in for Archidply Decor Ltd., Shyam Daga Managing Director

the Rules and Regulation 44 of the Listing Regulations the Company is pleased to provide e-voting facility to the members of the Company. The Company has appointed KFIN to provide e-voting facility and has appointed Mr. Snehal Shah of M/s. Snehal Shah and Associates, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting Postal Ballot Process in a fair and transparent manner. Members can opt to exercise their voting rights through e-voting. The detailed procedure for e-voting is given in the Postal Ballot Notice. The voting through e-voting shall commence from Tuesday, 31st May 2022 (9.00 am IST) and end on Wednesday, 29th June 2022 (5.00 pm IST). Members are requested to cast their votes during this period only. The e-voting module shall be disabled by KFIN for voting thereafter and members shall not be allowed to vote beyond the said date & time. Once the vote is confirmed by the Member, he / she will not be allowed to change it subsequently. 7. The Results of Postal Ballot will be announced on or before warrant/cheque by post to such Member. Friday, 1st July 2022. The resolutions, if passed by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on the last date specified by the Company for e-voting i.e. Wednesday, 29th June 2022. The results of Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report will be placed on the website of the Company www.renukasugars.com and on the website of KFIN at www.kfintech.com. The Results will also be communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited where the Equity Shares of the

8. In case of any query, members may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact Mr. Rajeev Kumar, Dy. Manager - RIS Department of KFIN, by e-mail at einward.ris@kfintech.com / evoting@kfintech.com or call on the toll free 1800-309-4001.

Company are listed.

Place: Mumbai

For Shree Renuka Sugars Limited Date : 30th May 2022 Deepak Manerikar **Company Secretary**

Place : Mumbai

Date : May 31, 2022

New Delhi

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of the Shareholders w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct TDS from dividend paid to the Members at prescribed rates in the Income Tax Act, 1961 ('the IT Act'). In general, to enable compliance with TDS requirements, Members are requested to complete and / or update their Residential Status, Permanent Account Number ('PAN'), Category as per the IT Act with their DPs or in case shares are held in physical form, with the Company / Link Intime India Private Limited ('RTA') by sending documents at its e-mail ID ihcldivtax@linkintime.co.in or update the same by visiting the link: https://linkintime.co.in/formsreg/ submission-of-form-15g-15h.html on or before Friday, June 17, 2022 in order to enable the Company to determine and deduct appropriate TDS / withholding tax rate. No communication/documents on the tax determination / deduction shall be considered post 11:59 PM (IST) of Friday, June 17, 2022. For the detailed process, please click here: https://www.ihcltata.com/AGM/2022/TDS/.

For The Indian Hotels Company Limited

sd/-**BEEJAL DESAI** Senior Vice President Corporate Affairs & Company Secretary (Group)





जनसत्ता, 31 मई, 2022 9

JMIC Ludhiana

tp://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

Publication Issued To: Arvind Prasad

Address- Prop M/s Anand Cycle Store

whereas it has proved to the satisfaction

accused/accused persons can't be served

n the ordinary way of service. Hence this

roclamation under 82 of code of criminal

procedure is hereby issued against you

with a direction that you should appear

date of publication of this proclamation.

said case will be heard and determined

as per law, in your absence. for details

district_notice&district=Ludhiana

part to appear as directed above the above

logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=

JMIC Lu

of this court that you, the above named

M.g. Road Bharaopath Bihar Sarif,

Distt Nalanda Bihar 803101

CNR NO: PBLD03-018218-2019

Next Date : 11-07-2022

Vs

Arvind Prasad

PUBLIC NOTICE

Whereas Dharam Singh, Ravinder Singh, Jitender Singh & Kalyan Singh is in the process of undertaking of development of an Affordable Plotted Colony (DDJAY-2016), over an area measuring 5.0458 acres (after migration from License No. 36 of 2019 dated 1.03.2019 granted for an area measuring 5.0458 acres for setting up of Affordable Group Housing Colony)falling in the revenue estate of Village Wazirpur, Sector 95A, Distt. Gurugram, Haryana has been examined /considered by the department under the policy issued vide memo no. PF-27A/2700 dated 08.02.2016.

Whereas a revision of the said layout plan of the said colony to 5.0458 acres is proposed to be effected, wherein Affordable Group Housing component are proposed to be migrated in Affordable Plotted Colony (DDJAY) for better and organized planning of the colony.

And whereas the o/o Director, Town & Country Planning (Haryana), Chandigarh, while granting LOI vide Memo No. LC-3717-B/JE (DS)/2022/14693 dated 27.05.2022, has required seeking of any objections/ suggestions regarding the migration of license in the compliance of his office order dated 25.1.2021.

Accordingly, vide this public notice, objections are hereby invited from the general public on the provisional approved layout plan.

Objections, if any, may be filed in the o/o Senior Town Planner, Sector 14, Gurugram, Haryana, or may be filed in our Corporate Office within 30 days of this notice, failing which it shall be assumed that there are no objections to the provisional approved layout plan.

For Dharam Singh, Ravinder Singh, Jitender Singh & Kalyan Singh Place: Gurugram Date: 31-5-2022 Authorised Signatory

पश्रपति फिनकैप लिमिटेड पंजी. कार्यालय: ग्राम कपरीवास (धारुहेरा) जिला रेवाड़ी, हरियाणा प्रधान कार्यालय: 127-128, त्रिभवन काम्प्लैक्स, ईश्वर नगर, मथरा रोड, नई दिल्ली- 110065 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के लिये स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण

(राशि लाखों में)

	महीने 31 मार्च, 22 समीक्षाकृत	महीने 31 दिस. 21 समीक्षाकृत		महीने 31 मार्च, 22 अंकेक्षित	महीने 31 मार्च, 21 अंकेक्षित
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)			0.32		0.35
अवधि के लिए शुद्ध लाभ⁄ हानि)(कर एवं असाधारण मदों से पूर्व)	0.98	(0.05)	(14.27)	0.54	(27.72)
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	0.98	(0.05)	(14.27)	0.54	(27.72)
कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	0.98	(0.05)	(14.27)	0.54	(27.72)
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हुेत (कर के	_	-	-	-	-
बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के					
बाद से शामिल)					
इक्विटी शेयर पूंजी	470	470	470	470	470
पूर्व वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)					
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा					
अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)					
क) मूल	_	-	-	0.01	-
ख) तरल	-	-	-	0.01	-
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा					
अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)					
क) मूल	-	(0.001)	-	0.01	(0.59)
ख) तरल		(0.001)		0.01	(0.59)

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा सचीबद्ध सत्ता की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

	पशुपति फिनकैप लि. के लिए
स्थानः नई दिल्ली तिथि: 30.05.2022	हस्ता.⁄- विदित जैन निदेशक

RCI INDUSTRIES & Criminal Courts, Ludhiana n The Court Of Ms Divya Sharma TECHNOLOGIES LIMITED CIN: L74900DL1992PLC047055 next date, purpose of case, orders and judgments Regd. Off.: Unit No. 421, 4* Floor, Pearl as well as other case information is available on Omaxe, Netaji Subhash Place, Delhi-110034 Phone: +91-11-41681828 M/s Hero Ecotech Limited E-mail: compliance@rciind.com Website: www.rciind.com

> POSTPONEMENT OF BOARD MEETING Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that due to unavoidable circumstances the meeting of Board of Directors of the Company which was originally scheduled on Monday, 30" May, 2022 is postponed and re-scheduled to be held on Wednesday, 15th June, 2022, inter alia, to consider and approve the Audited Financial Result (Standalone and Consolidated) for the Quarter and Year ended

personally before this court on 11-7-2022 31^e March, 2022. at 10:00 a.m. or within 30 days from the The said Notice may be accessed on the Company's website at https://www.rciind.com/ and the take notice that, in case of default on your website of BSE http://www.bseindia.com/.

> For RCI Industries and Technologies Limited **RAJEEV GUPTA** Place: New Delhi Director

> Date: 30.05.2022 DIN: 00503196

নার্থে হল্পার্য হওল্টো		60	
CIN: L27106DL1985PI	LC021811		
पंजी. कार्या. 5140/41/34, चौधरी मार्केट, गली पेटी वाली,	रुई मंडी सदर ब	गजार दिल्ली-	110066
कार्पोरेट कार्यालयः 19, जी.टी.रोड, गाजियाबा			110000
ईमेलः nirajspatindustries@gmail.com, वेब		irajispat.in	
फोन नं. 011–23551821, 011-	-64581675		
भाग 1			(रु. लाख में
विवरण	समाप्त तिमाही	तिथि तक वर्ष	समाप्त वर्ष
	(31.03.2022)	के आंकड़े	(31.03.2021
	(अंकेक्षित)	(31.03.2022)	अंकेक्षित
(नीचे टिप्पणी देखें)		(अंकेक्षित)	
1 परिचालनों से कुल आय	126.51	533.42	148.89
2 अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) (कर,विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व*	12.25	100.79	8.42
3 कर से पूर्व अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण	12.25	100.79	8.42
मदों के बाद*)			
4 कर से बाद अवधि के लिये लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद	9.27	75.27	6.39
-5- अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु कर के बाद) लाभ/(हानि) एव	9.27	75.27	6.39
व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)			
6 इक्विटी शेयर पूँजी	60.00	60.00	60.00
र जारक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	_	_	
के अतिरिक्त आरक्षित			
8 आय प्रति शेयर (रु. 10/-प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)			
(अ) मूल	1.54	12.54	1.07
(ब) तरल	1.54	12.54	1.07
टिप्पणीः			
1 उपरोक्त विवरण सेबी (सत्तीयन तथा अन्य उदघाटन अपेक्षा)	विनियमन २०११	5 के विनियमन	33 के अंतर

नीरज इस्पात इंड्रस्टीज लिमिटेड

े उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज तथा सूचीबद्ध सत्ता की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

2. लेखा नीतियों में परिवर्तन के कारण शद्ध लाभ/हानि, कल व्यापक आय अथवा किसी अन्य संबंधित वित्तीय मद पर प्रभाव को फट नोट हारा उदघाटित किया जायेगा।

3. # जो भी लाग हो, इंड–एएस नियमावली/एएस नियमावली के अनुसार विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के लाभ तथा हानि के विवरण में समायोजित किया गया है।

नीरज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लि
हस्ता/
नामःचैतन्य चौध
पदनामः निदेशक एवं सीईअ
DIN:0681339

केन्द्रीय विद्यालय	डयूटश्च बक एजा शुाद्धपत्र	0) रेलटेल
	ऋणधारक सोनाली एण्टरप्राईजेज के संदर्भ में	रेलटेल (भारत सरकार का एक उपक्रम) सोआइंएन स. L64202DL2000GO1107905
सेक्टर - 4, आर.के. पुरम, नई दिल्ली - 110022	28.5.2022 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित	निविदा सं: आरसीआईएल_पू.से_2022-23_
	कब्जा सूचना में सम्पत्ति सं. 1 का क्षेत्रफल माप	1 YOC 0 / 44 0 7 51YL YOC 0 40 41 YET 019
प्रवेश सूचना	गलती से 160 वर्ग यार्ड्स की जगह 60 वर्ग	2 10 10 - Quinter and a construction of the co
केंद्रीय विद्यालय से.–4 आर के पुरम में सन्न 2022–23 के लिए कक्षा एक में अनुसूचित	यार्ड्स प्रकाशित हो गया है। कृपया उसके सही	an and an one intermediation of these equi
जनजाति, दिव्यांग तथा अन्य पिछडा वर्ग (नोन क्रीमी लेयर) में प्रवेश हेतु कुछ स्थान रिक्त	एरिया माप 160 वर्ग यार्ड्स पढ़ें। अन्य सभी	314 BHQs की डिलीवरी के लिए डार्क फाइबर किराये
그는 걸 때 그렇게 해외에서 가지 않고 있는 것은 것이다. 것이다. 것이다. 같은 것이라고 있다. 그는 것이 가지 않는 것이라. 것이라는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없다. 것이 없는 것이 없는 것이 없다. 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없다. 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없다. 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없다. 것이 없는 것이 없다. 것이 없는 것이 없다. 것이 없는 것이 없다. 것이 없는 것이 없 않는 것이 없는 것이 않는 것이 않는 것이 않는 것이 않는 것이 없는 것이 않는 것이 않는 것이 없는 것이 않는 것 않는 것	विषय–वस्तु पूर्ववत रहेंगे।	पर लेने" के कार्य हेतु पात्र बोलीदाताओं से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
है। इच्छुक उम्मीदवार जिनकी आयु 31.03.2022 तक 6 से 8 साल के बीच हो	विशाल चरण	निविदा सूचना/ और निविदा
विद्यालय में दिनांक 31.05.2022 से 10.06.2022 (प्रातः 10 से दोपहर 01 बजे) तक	तिथिः ३०.०५.२०२२ प्राधिकृत अधिकारी	
पंजीरकरण करवा सकते है । प्राचार्य	स्थानः नई दिल्ली ड्यूटश्चे बैंक ए.जी.	परिशिष्ट / शुद्धिपत्र केवल रेलटेल की वेवसाइट और आईआरईपीएस पोर्टल पर अपलोड किये जाएंगे।
i di	20	

एमर	जैंट इंड	ऽस्ट्रियल	सॉल्यश	ांस लि	मिटेड					
ء - (पू	र्व में एमर्जेंट	ग्लोबल एजु	केशन एंड स	ार्विसेज लिगि	मेटेड)					
	सीआईए	न- L80902	DL1983PL	C209722						
		बी, 'सागर' 6.					、			
फोनः (91) (11) 23782022, 23382592, फैक				_	-	-				
31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष	के लिए	एकमेव औ	र समेकित	। लेखा प	रीक्षित वि	त्तीय परि	णामौं के विव	रण का र	गरांश	
			* \				(शेयरो और इ		ाख्या को छो	ड़कर लाख में)
	-		स्टैंडअलोन					समेकित		
		समाप्त तिमाई		समाप	त वर्ष		समाप्त तिमाही		समा	ाप्त वर्ष
विवरण	31 मार्च	31 दिस.	31 मार्च	31 मार्च	31 मार्च	31 मार्च	31 दिस.	31 मार्च	31 मार्च	31 मार्च
	2022	2021	2021	2022	2021	2022	2021	2021	2022	2021
	अंकेक्षित	अलेखापरीक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अलेखापरीक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1 कुल राजस्व	3430.68	344.66	11791.26	10810.56	51916.48	3427.37	341.29	11788.12	10797.19	51903.84
2 अवधि के लिए लाभ/हानि (कर पूर्व, असाधारण और/या असाधारण मदें)	16.93	1.44	58.96	199.10	576.97	13.49	(2.05)	55.45	185.09	563.41
3 कर पूर्व अवधि के लिए लाभ / हानि (असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद)	16.93	1.44	58.96	199.10	576.97	13.49	(2.05)	55.45	185.09	563.41
4 कर के बाद की अवधि के लिए लाभ (+) ∕ हानि (−) (असाधारण और ⁄ या असाधारण मदों के बाद)	9.90	1.32	39.99	147.59	429.33	6.83	(1.61)	37.24	135.63	417.99
5 अवधि के लिए कुल व्यापक आय/लाभ/(हानि) अवधि के लिए (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल है,	8.15	1.32	43.53	145.84	431.92	5.08	(1.61)	40.78	133.88	420.58
6 प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु.10 / – प्रति शेयर)	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90
7 पिछले लेखा वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोडकर अन्य इक्विटी		- 2	_	1769.44	1623.60		-	-	1629.71	1495.82
8 प्रति शेयर आय (असाधारण मदों से पहले) (वार्षिक नहीं)	0.22	0.33	0.88	3.23	9.40	0.15	(0.04)	0.82	2.97	9.15
(ए) मूल (बी) डिलूटेड	0.22	0.33	0.88	3.23	9.40	0.15	(0.04)	0.82	2.97	9.15
9 प्रति शेयर आय (असाधारण मदों के बाद) (वार्षिक नहीं)	0.22	0.03	0.88	3.23	9.40	0.15	(0.04)	0.82	2.97	9.15
(ए) मूल	0.22	0.03	0.88	3.23	9.40	0.15	(0.04)	0.82	2.97	9.15
(बी) डिलूटेड										
टिपण्णी : उपरोक्त सेबी (सूचीकरण और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम	म, 2015 के f	वेनियमन 33 व	ने तहत स्टॉक	एक्सचेंज व	के साथ दायर	किए गए :	31 मार्च, 2022 क	र्जे समाप्त तिम	ाही और वित्ती	य वर्ष के लिए
लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। एकमेव और	समेकित ले	खा परीक्षित वि	त्तीय परिणामे	ां का पूर्ण प्र	ारूप स्टॉक ए	क्सचेंज की	वेबसाइट www	.bseindia.co	m और कंपर्न	ो की वेबसाइट
www.eesl.in पर उपलब्ध हैं।										、、、
							-	कने गाल्जेंन नं		के आदेशानुसार न्यूशंस लिमिटेड
								भूगत उनजट इ	जारद्रयल साल	त्यूशस ।लामटड हस्ता∕–

	हस्ता/—
	आर सी खंडूरी
स्थान : नई दिल्ली	(निदेशक)
दिनांकः 30.05.2022	डीआईएन : 03048392

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड

पंजी. कार्याः टोल प्लाजा, मयूर विहार लिंक रोड, नई दिल्ली-110091

टेली • 0120-2516495 फैक्स 0120-2516440

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष का अंकेक्षित वित्तीय परिणाम

नताय	पारणाम			
		(रू.	लाख	में)

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

निदेशक

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 30.05.2022

Г				स्टैण्डएलोन			समेकित					
		विवरण	0	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
		1.1441	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	क्र.सं.		अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		प्रचालनों से कुल आय	656.71	233.70	647.73	1,722.59	1,358.74	650.82	239.80	649.24	1,723.19	1,362.01
	Π	कराधान के पूर्व अवधि हेतु लाभ/(हानि)	(950.71)	(1,218.29)	(793.13)	(4,146.59)	(4,045.60)	(963.32)	-1200.19	(780.13)	(4,114.91)	(3,995.49)
	III	सतत प्रचालनों से निवल लाभ/(हानि)	(950.71)	(1,218.29)	(793.13)	(4,146.59)	(4,045.60)	(963.32)	(1,200.19)	(780.13)	(4,114.91)	(3,995.49)
	IV	अवधि हेतु कुल अन्य व्यापक आय	(3.68)	0.60	(1-54)	(1.88)	(0.28)	(3.77)	0.74	(0.89)	(1-55)	(0.88)
		अवधि हेतु कुल व्यापक आय	(954.39)	(1,217.69)	(794.67)	(4,148.47)	(4,045.88)	(967.09)	(1,199.45)	(781.02)	(4,116.46)	(3,996.37)
	VI	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (रु. 10 का अंकित मूल्य)	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50
		आरक्षिति (गत वर्ष के तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति को छोड़कर)	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	8,529.48	12,677.95	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	8,517.30	12,649.45
		आय प्रति शेयर बेसिक										
		डाइल्यूटेड	(0.51)	(0.65)	(0.43)	(2.23)	(2.17)	(0.52)	(0.64)	(0.42)	(2.21)	(2.15)

टिप्पणी तथा वित्तीय परिणाम

उपरोक्त परिणाम कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अध्यधीन रहे जिनकी ऑडिट कमिटी द्वारा की गई तथा 30 मई, 2022 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 26 अक्टूबर 2016 के अपने फैसले में 2012 में दायर एक जनहित याचिका पर (रियायत समझौते की वैधता को चुनौती देते हुए और रियायत समझौते को रद्द करने की मांग करते हए) कंपनी को निर्देश दिया था कि शुल्क वसुलने और संग्रह करने से संबंधित दो विशिष्ट प्रावधानों को निष्क्रिय मानते हुए, उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करना बंद करें, लेकिन रियायत समझौते को रद्द करने से इनकार कर दिया। नतीजतन, नोएडा ब्रिज के उपयोगकर्ताओं से उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह 26 अक्टूबर 2016 से निलंबित कर दिया गया है जिसके विरुद्ध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक स्पेशल लीव एप्लीकेशन (एसएलपी) दायर की गई है जिसमें उक्त फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है।

11 नवम्बर, 2016 को अपने अंतरिम आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम स्थगन से इंकार कर दिया लेकिन, यह पता लगाने के लिये सीएजी की सहायता मांगी कि क्या रियायत अनुबंध की शर्तों के अनसार परियोजना की कल लागत कम्पनी द्वारा वसल कर ली गयी है या नहीं। सीएजी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट सौंप दिया है। 14 सितम्बर, 2018 को अपनी अंतिम सनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सीएजी द्वारा जमा की गई रिपोर्ट मुहरबंद लिफाफे में रखी जाये।

विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय के लिए लंबित है। कंपनी ने नोएडा को भी अधिसूचित कर दिया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के साथ पठित माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला रियायत अनुबंध के अंतर्गत 'कानून में परिवर्तन' का गठन करता है तथा रियायत अनुबंध के सुधार के लिये एक विस्तृत प्रस्ताव जमा किया ताकि उसे उसी रूप में विधिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक हैसियत में स्थापित किया जाये जो कानून के उक्त परिवर्तन से पूर्व में था। चूंकि, नोएडा ने इस प्रस्ताव पर कार्य नहीं किया, कम्पनी ने नोएडा के पास विवाचन की एक नोटिस भेजी थी।

विवाचन अधिकरण का गठन कर लिया गया है तथा दोनों कंपनी एवं नोएडा ने अपने दावे तथा प्रति दावे जमा किये हैं। आगे, नोएडा विवाचन कार्यवाही की मैन्टनैबिलिटी पर धारा 16 के अंतर्गत एक आवेदन दाखिल किया है जिसे आदेश तिथि 10 अगस्त, 2018 द्वारा विवाचन अधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया।

नोएडा ने मध्यस्थता और सलह अधिनियम, 1961 की धारा 34 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें 10 अगस्त, 2018 के मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई थी. जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोएडा को बिना किसी राहत के 31 जनवरी. 2019 को निपटा दिया था।

नोएडा ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाचन कार्यवाहियों के लिए एक आवेदन दाखिल किया है। 12 अप्रैल, 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवाचन कार्यवाहियों पर स्टे का निर्देश दिया। 31 जनवरी,2020 को, कंपनी ने 12 अप्रैल, 2019 के आदेश के तहत दिए गए अंतरिम स्थगन की छुट्टी के लिए एक आवेदन दायर किया। कोविड–19 के प्रकोप को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट का कामकाज केवल अत्यावश्यक मामलों तक ही सीमित था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 21 सितंबर, 2020, 5 अक्टबर, 2020, 18 नवंबर, 2020, 20 जनवरी, 2021, 16 मार्च, 2021, 15 अप्रैल, 2021, 26 जलाई, 2021, 10 अगस्त, 2021, 8 सितंबर, 2021, 26 अक्टूबर, 2021 और 9 नवंबर, 2021 और 1 दिसंबर, 2021, 7 दिसम्बर, 2021, 9 दिसम्बर, 2021, 15 दिसम्बर, 2021, 6 जनवरी, 2022, 10 जनवरी, 2022, 19 जनवरी, 2022, 29 मार्च, 2022 तथा 10 मई, 2022 को अत्यावश्यक पत्र दाखिल करने के अनुसरण में मामले की सुनवाई की गई और अब मामले को सुनवाई हेतु 23 अगस्त, 2022 को पोस्ट कर दिया गया है।

विधिक ओपिनियन और निदेशक मंडल की निर्भरता के आधार पर, कंसेशन एग्रीमेंट (क्षतिपुर्ति एवं अन्य रिकोर्स से सम्बन्धित) के प्रावधानों पर. कंपनी को विश्वास है कि अमर्त और अन्य संपत्तियों के अंतर्निहित मुल्य प्रभावित नहीं होते हैं।

कम्पनी परियोजना आस्तियों के रखरखाव सहित कंसेशन एग्रीमेंट के अनसार अपने दायित्व को पर्ण करती रहेगी।

20 सितंबर, 2021 को, कंपनी को निर्धारण वर्ष 2018-19 हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144बी के साथ पठित आयकर विभाग से धारा 143(3) के तहत निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से भूमि के मूल्यांकन के कारण, भूमि को राजस्व सब्सिडी मानने के कारण 46.23 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

कंपनी ने 30 सितंबर,2021 को आयकर के निर्धारण अधिकारी से दंड की कार्यवाही को रोके रखने का अनुरोध किया और 19 अक्टूबर,2021 को आयकर आयुक्त (अपील), राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (एनएफएसी) के पास उक्त निर्धारण आदेश के विरूद्ध एक अपील दायर की।

दिसंबर 2019 के दौरान कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत आयकर विभाग से निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 हेतु निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें क्रमशः 357 करोड़ रुपये और 383.48 करोड़ रुपये की मांग की गई है। कर विभाग के साथ ऐतिहासिक विवाद पर आधारित है, जो मुख्य रूप से भविष्य में वसुल की जाने वाली निर्दिष्ट रिटर्न की बकाया राशि, भुमि के मुल्यांकन और अन्य वसलियों के कारण है। कंपनी ने प्रथम स्तर के अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर की है। फेसलेस अपील में संक्रमण के साथ, जैसा कि फेसलेस अपील योजना, 2020 के तहत पेश किया गया था, दोनों अपीलों को एनएफएसी में स्थानांतरित कर दिया गया है।

कंपनी को नि.व. 2016-17 और नि.व. 2017-18 के लिए एनएफएसी से एक कारण बताओ नोटिस, दिनांक 15 मई,2021, धारा 270ए के तहत प्राप्त हुआ है। हालांकि, कंपनी ने अनुरोध किया है कि दंड की कार्यवाही को स्थगित रखा जाए क्योंकि योग्यता के आधार पर अपील वर्तमान में आयकर आयक्त (अपील) के समक्ष लंबित है।

आयकर विभाग ने पहले के वर्षों में 1,340.03 करोड़ रुपये की मांग की है, जो मुख्य रूप से भूमि के आवंटन के कारण टोल और राजस्व सब्सिडी से भविष्य में वसूल किए जाने वाले नामित रिटर्न के बकाया के कारण था। 25 अप्रैल, 2018 को सीआईटी (ए) से आदेश प्राप्त होने के अनुसरण में, सीआईटी (ए) के उक्त आदेश के अनुसार, जिससे 10,893.30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर मांग उठाई गई थी. कंपनी को निर्धारण अधिकारी, आयकर विभाग, नई दिल्ली से निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2014-15 के प्रभाव के संबंध में मांग का नोटिस प्राप्त हुआ है। मांग में वृद्धि मुख्य रूप से भूमि के मूल्यांकन के कारण हुई। कंपनी

DR. M. INDUSCORP LIMITED

Regd. Office: 18B/1, Ground Floor, Dev Nagar, D.B.Gupta Road. Karol Bagh. New Delhi-110005. Tel.: +91-11-28716806 CIN: L01119DL1986PLC023698 Website: www.drminduscorp.com; Email: drmsoy@gmail.com

Extract of the Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31.03.2022

		For	Quarter end	For year ended		
SI. No.	Particulars	31.03.2022 Audited	31.12.2021 Unaudited		31.03.2022 Audited	202012200
1	Total income from operations (Net)	20.71	19.63	14.73	65.15	63.18
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.32)	(3.36)	(5.61)	(10.23)	(15.89)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.32)	(3.36)	(5.61)	(10.23)	(15.89)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.32)	(3.36)	(5.61)	(10.23)	(15.89)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(2.32)	(3.36)	(5.61)	(10.23)	(15.89)
6	Equity Share Capital	*763.02	*763.02	*763.02	*763.02	*763.02
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	0.00	0.00	0.00	(542.28)	(532.95)
8	Earnings per share: a) Basic b) Diluted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

The Share Capital includes amount of Rs. 7 Lacs against shares forfeited.

Place: New Delhi

Date: 30.05.2022

- Note: a) The above is an extract of the detailed format of the Statement of Audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed Financial Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 30.05.2022. The full format of the Statement of Audited Financial Results is available on the Company's website (www.drminduscorp.com) and on the website of Stock Exchange i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in).
- The Statutory Auditors of the Company have carried out a Audit of the Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2022 in terms of Regulation 34 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and have expressed their unqualified opinion.
- The figures of the previous period/year has been regrouped/recast wherever considered necessary, to conform to the current year classifications.

By the Order of the Board

[Prem Prakash] Managing Director DIN: 00289179

पशपति स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड

CIN: L74900HR1979PLCOO9789, फोन नं. +91-11-47632200 ईमेल आईडी: cs@pasupaptitextiles.com पंजी. कार्यालयः ग्राम कपरीवास (धारुहेरा) जिला रेवाडी. हरियाणा

प्रधान कार्यालयः 127-128, त्रिभुवन काम्प्लैक्स, ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली- 110065 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के लिये स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण लाखों में) 📝

			(*")	a organa a	
विवरण	समाप्त 3	समाप्त 3	समाप्त 3	समाप्त 12	समाप्त 12
	महीने	महीने	महीने	महीने	महीने
	31 मार्च, 22			31 मार्च, 22	
	नोट ७	समीक्षाकृत	समीक्षाकृत	समीक्षाकृत	अंकेक्षित
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	2934	2967	2437	10,340	6.753
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ हानि)(कर एवं	271	111	(130)	3	(775)
असाधारण मदों से पूर्व)					
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	271	111	258	3	(387)
(असाधारण मदों के बाद)					
कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	199	81	158	5	(308)
(असाधारण मदों के बाद)					
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेत (कर के	214	73	132	4	(333)
बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर					
के बाद से शामिल)					
इक्विटी शेयर पूंजी	934	934	934	934	934
पूर्व वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन					1,920
आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)					
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा					
अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)					

रिटुज मकेन्टाइल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 603, सेठी भवन, 7, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008 सीआईएन : L52110DL1985PLC019805, दरभाष नं. : 011-25742255 वेबसाइट : www.ritzmercantile.com, ई-मेल : ritzmercantilelimited@gmail.com

31.03.2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लेखापरीक्षित स्टेण्डएलॉन

Â	परिणामां का			(रु. में राष्टि
विवरण		समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त व
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.202
प्रचालनों से कुल आय (निवल)	640911	78887	651061	8552
कर पश्चात सामान्य गतिविधियों से निवल लाभ/हानि	500159	(188677)	34896	(983578
सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात निवल लाभ/हानि (असाधारण मदों के पश्चात)	485642	109452	20379	(68544
इक्विटी शेयर पूंजी	1050000	1050000	1050000	10500
आरक्षितियां (तुलन पत्र में प्रदर्शित पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)	9668926	9648547	9668926	96485
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (रु. 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य)				2
बेसिक	0.48	-0.18	0.03	-0.
डाइल्यूटेड	0.48	-0.18	0.03	-0.
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों के पश्चात) (रु. 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य)				
बेसिक	0.46	0.10	0.02	-0.
डाइल्यूटेड	0.48	0.10	0.02	-0.

टिप्पणी

तिथि: 30.05.2022

1. परिणामों की समीक्षा तथा अनुमोदन 27 मई, 2022 को आयोजित निदेशक मण्डल की बैठक में निदेशक मंडल के द्वारा किया गया

2. 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान निवेशक की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हई/तिमाही/अवधि के आरंभ और अंत में निवेशक की कोई शिकायत लम्बित नहीं थी।

3. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा विनियमन), 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्स्चैंज में दाखिल तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तुत प्रारूप का सार है। उसक सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट ''www.cse-india.com'', ''www.msei.in' तथा कम्पनी की वेबसाईट ''www.ritzmarcentile.com'' पर उपलब्ध है।

4. 31 मार्च, 2022 तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के ऑकडे सम्पूर्ण वित्त वर्ष तथ 31 मार्च, 2022 तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त तीसरी तिमाही तक तिथि तक वर्ष के प्रकाशित अंकेक्षित आँकडे के संदर्भ में अंकेक्षित आँकडों के बीच संतुलक आँकडे हैं।

5. जहाँ आवश्यक समझा गया गत अवधि/वर्ष से सम्बन्धित आँकड़ों को पुनर्समुहीकृत, रीकास्त तथा पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

कृते रिटुज मर्केंटाइल लिमिटेड

	ह./-
	गर्वित सिंघवी
स्थान : नई दिल्ली	पूर्ण–कालिक निदेशक
तिथि : 27.05.2022	डीआईएन : 00597757

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड *ilfinn*

(भारत सरकार का उपक्रम) पंजीकृत कार्यालयः सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत दूरभाषः +91-11-26530266, फेक्सः +91-11-26854000 वेबसाईटः www.ircon.org, ईमेलः investors@ircon.org, CIN-L45203DL1976GOI008171

सदस्यों को पोस्टल बैलेट/ई-वोटिंग की सूचना

कंपनी के सदस्यों को एतदवारा सचित किया जाता है कि पोस्टल बैलेट नोटिस ("नोटिस"). उक्त नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर सदस्यों की सहमति के लिए 30 मई, 2022 को सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजा गया है, जिनके नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात शक्रवार, 27 मई, 2022 तक सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज है और जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक धारिता के परिपेक्ष में संबंधित डिपॉजिटरी भागीधारों के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ तथा भौतिक धारिता के परिपेक्ष में अलंकित असाइंमेंट्स लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट ("आरटीए / अलंकित") के साथ अपने ई—मेल पते पंजीकृत कराए हैं।

यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर INVESTORS खण्ड के तहत और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वबसाइट पर उपलब्ध है। एमसीए, परिपत्रों के अनुपालन में, नोटिस की हार्ड कॉपी के साथ पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्री-पेड बिजनेस लिफाफा सदस्यों को नहीं भेजा गया है। तदनुसार, इस पोस्टल बैलेट पर सदस्यों की सहमति या असहमति का संचार रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से ही होगा। जिन सदस्यों ने अपने ई—मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है इलेक्टॉनिक रूप में डिपॉजिटरी के साथ धारित शेयरों के संबंध में अपने डिपॉजिटरी सहभागियों के माध्यम से और भौतिक रूप में कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, 208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, इंडिवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 को लिखित रूप में पंजीकृत करें या rta@alankit.com पर मेल करें | कंपनी के सभी सदस्यों को ई—वोटिंग द्वारा वोटिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है ताकि वे नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रोंनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की सेवाएं ली हैं।

न आयकर अपालाय न्यायाावकरण (आइटाएटा) क साथ स्ट 🔅	आवेदन के साथ एक अपाल दायर की है। आइटाएटा धारी 19 दिसंबर, 2018, 2 जनवरी,2019 और 6 फरवरी, 2019	का मामल का सुनवाई का गई
और 15 अक्टूबर,2018 के एनसीएलएटी आदेश के आधार पर	र, आईटीएटी ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देशों के साथ मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया।	

इसके अलावा, नवंबर 2018 में, सीआईटी (ए), नोएडा ने निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2014-15 के लिए जुर्माना आदेश पारित किया, जिसके आधार पर निर्धारण अधिकारी दिल्ली ने दिसंबर 2018 में 10,893.30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। कंपनी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के साथ एक स्थगन आवेदन के साथ एक अपील दायर की। आईटीएटी ने मामले की सुनवाई 29 मार्च 2019 और 3 मई 2019 को की थी। आईटीएटी ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के साथ मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है।

21 अप्रैल, 2022 को, कंपनी ने नि.व. 2006-07 से 2014-15 के संबंध में माननीय आईटीएटी के समक्ष लंबित अपीलों की शीघ्र सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया और बाद में आईटीएटी द्वारा 6 मई, 2022 मामले की सुनवाई की गई और अब स्थगन आवेदन के साथ अपील पर आईटीएटी द्वारा 21 जुलाई, 2022 को सुनवाई की जाएगी।

कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा 21 मई, 2019 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलएटी) के पास दाखिल शपथपत्र के सन्दर्भ में 15 अक्टूबर, 2018 को कट-ऑफ तिथि (''कट-ऑफ तिथि'' प्रस्तावित की गयी। माननीय एनसीएलएटी ने अपने आदेश दिनांक 12 मार्च, 2020 के माध्यम से इसके संशोधनों सहित नये बोर्ड द्वारा प्रस्तुत संशोधित समाधान फ्रेमवर्क को मंजूरी दी। कथित आदेश में माननीय एनसीएलएटी ने कम्पनी की समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए 15 अक्टूबर, 2018 को कट-ऑफ तिथि के रूप में मंजूरी भी दी। तदनुसार कम्पनी ने 15 अक्टूबर, 2018 (''कट-ऑफ तिथि') से प्रभावी अपने समस्त ऋण तथा उधारियों पर कोई ब्याज नहीं प्राप्त किया है।

खातों की पुस्तकों को फिर से खोलना, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ('एसएफआईओ') और अन्य नियामक एजेंसियों द्वारा जांच और ग्रांट थॉर्नटन इंडिया एलएलपी द्वारा फोरेंसिक जांच, जो कुछ समूह संस्थाओं के लिए प्रक्रिया में है, का कंपनी के वित्तीय विवरणों / संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पडा है।

कंपनी को 4 अक्टबर, 2021 को नोएडा से अंतिम मांग सचना दिनांक 30 सितंबर, 2021 प्राप्त हुई, जिसमें नोएडा ने इसकी प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर कंपनी द्वारा देय 26.05 करोड़ रुपये की कथित मांग उठाई. जिसमें विफल रहने पर नोएडा डीएनडी फ्लाईवे के नोएडा साइड पर सभी विज्ञापन डिस्प्ले को हटाने की धमकी दी गयी। उक्त नोटिस की प्राप्ति पर, कंपनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 4 अक्टबर, 2021 को एक अंतरिम आवेदन दायर किया। कंपनी द्वारा दायर अत्यावश्यकता / उल्लेख पत्र के आधार पर, मामले को 26 अक्टूबर, 2021 को सनवाई के लिए सचीबद्ध किया गया था। कंपनी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नोएडा को सभी घटनाक्रमों की सूचना देने के बावजूद, नोएडा के अधिकारियों ने 14 अक्टूबर, 2021 को डीएनडी फ्लाईवे के नोएडा की ओर के सभी विज्ञापन डिस्प्ले अवैध रूप से हटा दिये।

समय की कमी के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 26 अक्टूबर, 2021 को मामले को सुनवाई के लिए नहीं लिया गया था। कंपनी ने एक बार फिर 28 अक्टूबर, 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तात्कालिकता का उल्लेख किया और मामले को 9 नवंबर, 2021 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। बाद में 1 दिसंबर, 2021, 7 दिसम्बर, 2021 को सुनवाई के लिए लिया गया। इसके बाद, 9 दिसंबर, 2021 को, मामले का उल्लेख किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15 दिसंबर, 2021, 6 जनवरी, 2022, 10 जनवरी, 2022 को सना गया। 19 जनवरी, 2022 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अक्टबर, 2021 को दायर अंतरिम आवेदन का निपटारा इस निर्देश के साथ किया कि कंपनी को 125 रुपये प्रति वर्ग फट प्रति माह के भगतान पर आउटडोर विज्ञापन देने की अनमति दी जाएगी, जो कि कम्पनी द्वारा दाखिल 2016 के एसएलपी के परिणाम के अधीन है।

सितंबर 2018 के दौरान, नोएडा ने डीएनडी फ्लाईवे के नोएडा साइड पर विज्ञापन से राजस्व के संबंध में 3.69 करोड रुपये की और लाइसेंस शल्क के बकाया के लिए अतिरिक्त मांग (दिसंबर 2018 और अप्रैल 2019 के दौरान) कल 4.76 करोड़ रुपये की मांग की थी। कंपनी ने नोएडा से अनरोध किया था कि दोनों मांगों को स्थगित रखा जाए क्योंकि मामला नोएडा द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा गया था और एनसीएलएटी के आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2018 मद्देनजर दी गई मोहलत के कारण कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। ।

नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी जिसे 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया था, भारत सरकार तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार 16 मार्च, 2020 से समस्त वाणिज्यिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए तथा ''लॉक-डाउन'' एवं कर्फ्यु लगाने और राज्य से बाहर तथा भीतर यात्रा करने तथा कार्यालयों को बन्द करने के लिए विभिन्न उपाय/दिशा-निर्देश/निर्देश/आदेश जारी कर रही हैं। देश लंबे समय तक राष्ट्रीय लॉकडाउन से भी गुजरा है जिसने अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है।

कंपनी ने उन संभावित प्रभावों पर विचार किया है जो वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसुली सहित इन लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की तैयारी में कोविड-19 से संबंधित महामारी रं उत्पन्न हो सकते हैं। इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में संभावित भविष्य की अनिश्चितता से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में, कंपनी ने इन परिणामों के अनमोदन की तिथि पर, क्रेडिट रिपोर्ट और संबंधित जानकारी और आर्थिक पवार्नमान सहित सचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है और उम्मीद है कि इन परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसली की जाएगी। कंपनी के वित्तीय परिणामों पर कोविड–19 का प्रभाव इन परिणामों के अनुमोदन की तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकता है।

. कंपनी के पास एक ही व्यवसाय खंड है तथा इसलिए खंड–वार जानकारी का विवरण लागू नहीं है।

9. उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्ष) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामे का संपूर्ण प्रारूप कंपनी, नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाईटों क्रमशः www.ntbcl.com, www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर उपलब्ध है। 10. जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि/वर्ष के आंकड़े पुनर्समूहीकृत/ पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।

क) मूल	2.99	0.85	1.70	0.06	(3.30)
ख) तरल	2.99	0.85	1.70	0.06	(3.30)
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा					11
अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)					11
क) मूल	2.99	0.85	1.70	0.06	(3.30)
ख) तरल	2.99	0.85	1.70	0.06	(3.30)

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा सूचीबद्ध सत्ता की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। 2. उपरोक्त परिणामों पर 30 मई, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में ऑडिट कमिटी द्वारा तथा 30 मई, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा विचार किया गया।

3. इन विवरणों को उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम. 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) (इंड ए एस) नियमावली, 2015 के साथ पठित कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 तथा कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) लेखा नियमावली. 2016 के अनसार तैयार किया गया है।

. पर्व वर्षों में कम्पनी ने धारुहेरा में अपनी फैक्टी भमि के भाग के अधिग्रहण पर रु. 61.61 लाख का हर्जाना प्राप्त किया था। ऊंचे दर पर हर्जाने के भगतान के लिये सब डिवीजनल मजिस्टेट, गडगाँव-सह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी (एलए) के समक्ष प्रतिनिधित्व किया गया है। इस प्रतिनिधित्व में रु. 614.64 लाख के अतिरिक्त हर्जान की मांग की गई है जिसका लेखा जब और जैसे वह प्राप्त हो, उसके बाद किया जायेगा। 5. विशिष्ट मद एक कम्पनी के अप्रतिभूत ऋण का प्रतिनिधित्व करता है जो अब भुगतान योगय नहीं है। जिसे रिटर्न बैंक किया गया है।

5. सम्पर्ण विश्व में कोरोना वायरस रोग (कोविड–19) के प्रसार तथा वैश्विक महामारी के रूप में उसकी घोषणा के बाद भारत सरकार ने 24 मार्च, 2020 को लॉकडाउन की घोषणा की जिससे कम्पनी का प्रचालन अस्थाई रूप से निलम्बित हुआ तथा इससे कम्पनी के समग्र व्यावसायिक क्रियाकलापों पर प्रभाव पडा है। सरकार ने मई. 2020 से लॉकडाउन में छट देनी शरू की. किन्त कोविड-19 के दूसरे चरण के कारण अप्रैल. 2021 मे ्रपुनः लॉकडाउन कर दिया गया लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान उत्पादन में गतिरोध, आपूर्ति-कड़ी टूटने, कर्मियों की अनलब्धता, लॉकडाउन अवधि के दौरान उत्पादन सविधाओं आदि में क्लोजर/लॉकडाउन के द्वारा कोविड-19 ने कम्पनी के सामान्य व्यावसायिक प्रचालनों का पर प्रभाव पड़ा है। प्रचालनों को फिर से शुरू होने के बाद प्रबंधन ने लिक्विडिटी की स्थिति की विस्तृत गणना की है तथा भावी नगदी प्रवाह की रूप रेखा तैयार की है तथा साथ ही विभिन्न आंतरिक तथा बाहय सुचनाओं का उपयोग करते हुए उसकी कैश जनरेटिंग युनिट्स की वार्षिक अवरोध गणना में प्रयुक्त परिकल्पनाओं पर अपनी पसिम्पत्तियों की रिकवर होने की क्षमता का मूल्यांकन भी किया है। परिस्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है जिससे कोविड-19 के संभावित भविष्य के प्रभाव की सीमा तथा समयावधि पर अनिश्चितता बन रही है जो इन वित्तीय परिणामों की स्वीकृत की तिथि के प्राक्कलन से भिन्न हो सकता है। कम्पनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों से उत्पन्न किसी भौतिक परिवर्तनों तथा व्यवसाय पर उसके प्रभाव का गहनता से निगरानी कर रही है।

. अंतिम तिमाही के आंकड़े सम्पूर्ण वित्त वर्ष तथा चालू वित्त वर्ष की तसरी तिमाही तक तिथि तक वर्ष के समीक्षाकृत आंकड़े के संदर्भ में अंकेक्षित आंकड़ों के बीच संतुलक आंकड़े हैं।

पशुपति स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि. के लिए

हस्ता.

रमेश कमार जैन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

जिन सदस्यों के नाम **शुक्रवार, 27 मई, 2022** तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल हैं, केवल उन्हें मतदान के उद्देश्य से विचार किया जाएगा और प्रत्येक सदस्य का मतदान अधिकार कंपनी की शेयर पूंजी के प्रदत्त इक्विटी में उसके हिस्से के अनुपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति जो कट—ऑफ तिथि को शेयरधारक नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से समझना चाहिए।

सभी सदस्यों को एतदवारा सुचित किया जाता है कि:

 रिमोट ई–वोटिंग की अवधि मंगलवार 31 मई, 2022 को प्रातः 9:00 बजे (भा.मा.स.) प्रारम्भ होगी और बुधवार 29 जून, 2022 को सायं 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी।

 मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएटस, कंपनी सचिव में कार्यरत श्री सचिन अग्रवाल, कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या F5774), पार्टनर और सुश्री पूनम, कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या A37303), पार्टनर को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कानून के अनुसार ई—वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में नियक्त किया गया।

 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 को संबोधित किया जा सकता है अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर इमेल भेजें या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल करें।

सदस्यों द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से पारित प्रस्तावों को माना जाएगा कि वे सदस्यों की आम बैठक में पारित किए गए हैं। पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान के परिणाम **शक़वार 1 ज़लाई, 2022** को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे। पोस्टल बैलेट के परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर प्रकाशित की जायेगी और स्टॉक एक्सचेंजों यानी एनएसई और बीएसई को भी सुचित किया जाएगा।

कृते	इरकॉन	इंटरनेशनल	लिमिटेड
------	-------	-----------	---------

982535 10	हस्ता./
स्थानः नई दिल्ली	रित् अरोड़ा
दिनांक: 30 मई, 2022	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान : नोएडा

www.readwhere.com

तिथि : 30 मई, 2022